

# How South cinema is stealing the show

In the last six months, movies such as *Pushpa*, *RRR* and *KGF2* have shattered box-office records; trend expected to stay as more big-ticket regional films await release

VIVEAT SUSAN PINTO  
Mumbai, 24 April

Last week, West Indian bowler Obed McCoy, making his debut at the ongoing Indian Premier League, marked his celebration after taking a wicket by coolly swiping the back of his hand under his chin.

The imitation of actor Allu Arjun's iconic gesture was as good a reminder as any of the phenomenal run of *Pushpa: The Rise* — at the box office and beyond — since its release four months ago.

Quite simply, films from South India are having a field day at the box office as viewers from across the country and even the globe flock to theatres.

In the last six months, hits such as *Pushpa* and *RRR*, both Telugu-language films, and *K.G.F: Chapter 2*, a Kannada-language film, have shattered records in terms of box-office collections. The trend, say experts, is expected to stay as more big-ticket regional films await release in multiple languages across markets.

Consider this: In June, the Tamil movie titled *Vikram*, starring Kamal Haasan, will be released in theatres in India and overseas. In July, another Kannada-language film called *Vikrant Rona*, starring Sudeep, will hit the market. Both films, like *Pushpa*, *RRR* and *KGF2*, will be available in five languages — Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.

By August, a sports drama called *Liger*, which boasts a mix of southern and Bollywood stars, will be seen on the big screen. So will *Agent*, starring Malayalam superstar Mammootty, which is also expected to be dubbed in multiple languages.

What is creating the excitement around these films?

The Hindi dubbed version of *KGF2* has already hit the ₹300-crore mark in terms of collections within a week-and-a-half of its release, amongst the fastest for a regional film, and even ahead of *RRR* and *Pushpa*.

Film distributors and exhibitors agree that the southern industry is getting savvy with each new blockbuster release, both in terms of content and marketing. “For instance, Yash, the Kannada actor who fea-



## Who's ruling the silver screen

The EY-FICCI report says that domestic box-office revenues in calendar year 2021 were dominated by South Indian films at ₹2,400 crore, followed by Bollywood at ₹800 crore and Hollywood at ₹500 crore.

In 2019, Bollywood's share was higher than South Indian films (₹5,200 crore versus ₹4,000 crore), while Hollywood's share stood at ₹1,500 crore



as well as fatigue with Bollywood stars and scripts as reasons behind the new preference for South Indian films. The last big outing for Hindi stars was *Sooryavanshi*, featuring Akshay Kumar, Ajay Devgn and Ranveer Singh, in November 2021. Then there was the Alia Bhatt-starrer *Gangubai Kathiawadi*, based on the life of a female gangster, and *The Kashmir Files*, which delved into the lives of Kashmiri Pandits.

“Southern cinema has a few interesting elements including big stars, big directors, high-octane drama and action that is mounted on a large scale. Hindi audiences have also been exposed to the southern industry's production values, thanks to the dubbed versions on Hindi movie channels and OTT platforms. The southern industry also wraps up productions quickly, aiding quicker release and exhibition,” says Rahul Kadbet, vice-president, programming of multiplex chain Carnival Cinemas.

According to a recent report by consultancy firm EY and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), South Indian movies will continue to do better business than Bollywood films in 2022 as content clicks with audiences (*see box*). The trend has prompted Bollywood A-listers to cross over into the South, sharing screen space with actors there. In *Liger*, for instance, Vijay Deverakonda, best known to Hindi audiences as the star of *Arjun Reddy* (2017) that was remade as *Kabir Singh* (2019), will appear alongside Ananya Panday. Alia Bhatt and Ajay Devgn featured in *RRR*, while Raveena Tandon and Sanjay Dutt acted in *KGF2*.

# Security rationale behind no to Pak undergrad degrees

VINAY UMARJI  
Ahmedabad, 24 April

A joint statement issued on Friday by Indian higher education regulatory bodies that advised college students against enrolling in Pakistan was dictated by security concerns, according to consultants.

It differs from a similar cautioning earlier of Indian students against studying in China and Ukraine for medical programmes, they added.

The statement by University Grants Commission (UGC) and All India Council for Technical Education (AICTE) making employment and higher studies ineligible for Indians, who have degrees from Pakistani institutions, also plugs a route to repatriation for some.

“Any Indian national/overseas citizen of India who intends to take admission in any degree college/educational institution of Pakistan shall not be eligible for seeking employment or higher studies in India on the basis of such educational qualifications (in any subject) acquired in Pakistan,” read the statement.

“However, migrants and their children who have acquired higher education degrees in Pakistan and have

## REPATRIATION ROUTE

- Just over 200 Indian college students in Pakistan
- UGC, AICTE advised Indians against travelling to Pakistan for higher studies
- Overseas education consultants say the move

concerns national security

- Indian immigrants and OICs from other countries also go to Pakistan for studies
- Immigrants with passports of other countries also repatriate to India from Pakistan

been awarded citizenship by India would be eligible for seeking employment in India after obtaining security clearance from the MHA (Ministry of Home Affairs),” it added.

According to Adarsh Khandelwal, co-founder and CEO of overseas education firm Collegify, the move is geopolitical and keeps in mind India's national security. The notification is not directed solely at Indian students travelling to Pakistan, he said. A lot of Indian origin immigrants with passports of countries such as Canada and Australia and from Europe opt for college in Pakistan due to cheaper programmes and scholarship collaborations with some international universities, he added.

“They then try to come back to India for employment

and higher studies, which the government is looking to prevent as a security measure,” Khandelwal told *Business Standard*.

Citing government data, Sumeet Jain, co-founder of Yocket (also an overseas education consulting firm), said that the notification won't have a significant impact as the number of students travelling from India to Pakistan is just over 200 currently. “Apart from India, Pakistan does not figure among the top 10 overseas education destinations for several countries. There is not much to read into the statement.”

Khandelwal pointed out that mostly students from Jammu and Kashmir and a few other states, who face cultural struggles or discrimination in Indian institutions, travel to Pakistan.

“Also, Pakistani academics not only go on to seek post-doctoral studies or employment in countries such as the UK and the US but they also have collaborations for scholarship programmes. This attracts a lot of Indians studying in other countries, especially in the West, to choose education in Pakistan before seeking repatriation in India,” he added.

Some undergraduate courses in Pakistan are of a two-year duration, which also tends to attract OCI (overseas citizen of India) students from other countries.

As many as 84 Pakistani institutions featured in the recent QS World University Rankings by Subject 2022, of which three were in the top 100 and 16 among the top 200 universities. The top institutions from Pakistan in the QS University Rankings 2022 were National University of Sciences and Technology (358th position), Quaid-i-Azam University (378) and Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (398).

Last month, the UGC and AICTE also warned Indian students against studying in China and Ukraine where the medical programmes are incompatible with India due to either quality or duration of course and internship.

Consultants believe such advisories are meant to alert Indian students so that they won't land up with degrees that are incompatible with Indian regulations.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

## PUBLIC ANNOUNCEMENT



## GUJARAT POLYSOL CHEMICALS LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Gujarat Polysol Chemicals Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956 at Ahmedabad with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Gujarat (RoC) on October 18, 1989. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Gujarat Polysol Chemicals Limited' upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders on September 21, 2021. A fresh certificate of incorporation consequent upon change of name on conversion to public limited company was issued under the Companies Act, 2013 by the RoC on October 13, 2021. For details of changes in the name and registered office of our Company, please see the chapter entitled 'History and Certain Corporate Matters' beginning on page 199 of the Draft Red Herring Prospectus dated March 24, 2022 (DRHP).

**Registered Office:** Plot No. 1734, Third Phase, GIDC, District - Valsad, Vapi - 396 195, Gujarat, India.

**Corporate Office:** C-5/10/14, Polysol Building, 2<sup>nd</sup> Floor, GIDC, Char Rasta, N.H.48, Vapi, District Valsad - 396 195, Gujarat, India.

**Contact Person:** Dipakkumar Mohanlal Sanghani, Chief Financial Officer, Company Secretary and Compliance Officer, Tel: +91 99251 00331, E-mail: compliance@gujaratpolysol.com; **Website:** www.gujaratpolysol.com; **Corporate Identification Number:** U24231GJ1989PLC012892

## OUR PROMOTERS: SHAILESHKUMAR BALVANTRAI DESAI AND UMANG SHAILESH DESAI

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH (EQUITY SHARES) OF GUJARAT POLYSOL CHEMICALS LIMITED (OUR COMPANY OR ISSUER) FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) (OFFER PRICE), AGGREGATING UP TO ₹4,140.00 MILLION (OFFER) COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹870.00 MILLION (FRESH ISSUE) AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹3,270.00 MILLION (OFFER FOR SALE), COMPRISING: (A) UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,830.00 MILLION BY SHAILESHKUMAR BALVANTRAI DESAI AND UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹380.00 MILLION BY UMANG SHAILESH DESAI (COLLECTIVELY, THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS); AND (B) UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,020.00 MILLION BY M/S. POLYSOL FINANCIAL SERVICES LLP AND UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹40.00 MILLION BY M/S. APURVA INTERNATIONAL (COLLECTIVELY, THE PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS, AND ALONG WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, COLLECTIVELY, THE SELLING SHAREHOLDERS). THE OFFER WILL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.



THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER (BRLM) AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE [●], AN ENGLISH LANGUAGE NATIONAL DAILY WITH WIDE CIRCULATION, ALL EDITIONS OF [●], A HINDI LANGUAGE NATIONAL DAILY WITH WIDE CIRCULATION, AND [●] EDITION OF [●] (GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED (BSE) AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE, AND TOGETHER WITH THE BSE, THE STOCK EXCHANGES) FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SEBI/ICDR REGULATIONS AS AMENDED.

## ADDENDUM CUM CORRIGENDUM TO THE DRHP: NOTICE TO INVESTORS

This is with reference to the draft red herring prospectus of the Company dated March 24, 2022 (DRHP) filed with Securities and Exchange Board (SEBI) in connection with the Offer. Attention of the Investors is drawn to the following:

- All references to the phrase “the brothers” at the following places in the DRHP should read as “the brothers, viz., Shirish Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai”: (a) definition of the term “Connected Group” on page 5 of the DRHP; (b) definition of the term “Promoter Group” on page 6 of the DRHP; (c) definition of the term “SEBI Exemption Applications” on page 6 of the DRHP; (d) under the sub-heading “Exemption from complying with any provisions of securities laws, if any” on page 32 of the DRHP; and (e) under the sub-heading “Exemption under securities laws” on page 333 of the DRHP.
- Following disclosure shall be inserted: (a) on page 225 of the DRHP, below the table stipulated under the sub-heading “Natural persons who are part of the Promoter Group”; (b) on page 226 of the DRHP, after the narration provided under chapter entitled “Our Group Companies”; and (c) on page 30 of the DRHP, below the table stipulated under the sub-heading “Summary of Related Party Transactions - Outstanding Balance as at”:  
“Shirish Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai, the brothers of Shaileshkumar Balvantrai Desai, one of our Promoters, have refused to provide information required to be disclosed in terms of SEBI/ICDR Regulations. Consequently, our Company has filed the SEBI Exemption Applications as our Company has been unable to obtain the requisite information in respect of Shirish Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai and the Connected Group. Accordingly, our Company has not disclosed details of Shirish Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai and the Connected Group in this Draft Red Herring Prospectus.”
- On page 225 of the DRHP, under the sub-heading “Confirmations”, following disclosures shall be inserted:  
“M/s. Urmil Polymer Industries gave a loan amounting to ₹0.10 million to Sanjay Balvantrai Desai on February 28, 2012. Subsequent to the business transfer agreement dated May 29, 2020, entered between our Company and M/s. Urmil Polymer Industries, this loan was transferred to our Company. Sanjay Balvantrai Desai repaid the aforementioned loan to our Company on 24 February 2022.  
M/s. Urmil Polymer gave a loan amounting to ₹0.10 million to Shirish Balvantrai Desai on February 28, 2012 and M/s. Polysol Industries gave various loans to Shirish Balvantrai Desai between the March, 2012 and September, 2014 aggregating to ₹10.27 million. Subsequent to the Business Transfer Agreements, the aforementioned loans were transferred to our Company. Shirish Balvantrai Desai is liable to pay the said loans to our Company (Shirish Outstanding Loans). In relation to the related party transactions each with Apurva Chemicals Private Limited and Sanjam Industrial Products (both forming part of the Connected Group), there are no outstanding balances as on date.  
Apart from Shirish Outstanding Loans, neither our Company nor our Promoters have any ongoing transaction with Shirish Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai.”

This addendum cum corrigendum is with reference to the DRHP (Corrigendum) has been approved by our IPO Committee in its meeting dated April 22, 2022 and shall be read in conjunction with the DRHP. The information in this Corrigendum supersedes the information in the DRHP to the extent inconsistent with the information in the DRHP. Relevant changes will be reflected in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with RoC, SEBI and the Stock Exchanges.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER
 <b>INGA VENTURES PRIVATE LIMITED</b> 1229, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Opp. Telli Galli, Andheri (E), Mumbai - 400 069, Maharashtra, India Tel: +91 22 6854 0808 Email: gpcd.ipo@ingaventures.com Investor Grievance e-mail: investors@ingaventures.com Website: www.ingaventures.com Contact Person: Kavita Shah SEBI Registration No.: INM000012698	 <b>LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED</b> C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 22 4918 6000 Email: gujaratpolysol.ipo@linkintime.co.in Investor Grievance Email: gujaratpolysol.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR00004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.


Place: Vapi, Gujarat  
Date: April 23, 2022

For GUJARAT POLYSOL CHEMICALS LIMITED  
On behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
Company Secretary and Compliance Officer

GUJARAT POLYSOL CHEMICALS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on March 24, 2022. The DRHP is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), respectively, and the website of the BRLM, i.e., Inga Ventures Private Limited at [www.ingaventures.com](http://www.ingaventures.com). Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled “Risk Factors” beginning on page 33 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

There will be no public offering in the United States. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in “offshore transactions” in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers, and sales are made.

#BSMorningShow



Infocus

Does the NITI Aayog's draft battery-swapping policy address industry concerns?



Q&A

Why does Assocham President Sumant Sinha think India will see better growth than peers?



Market Insight

Will stock markets absorb the US Fed's half-point whiplash?



Get the answers in today's episode



Visit [mybs.in/MorningShow](http://mybs.in/MorningShow) or scan this code to watch.

presents  
**Business Standard MORNING SHOW**

Mon - Fri | 8am



# दोपहिया शेयरों की रफ्तार तेज होने के आसार

इनमें सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। हीरो कई बोकरों का पसंदीदा शेयर है। ग्रामीण सेगमेंट में सुधार दोपहिया के लिए अहम

राम प्रसाद साहू  
मुंबई, 24 अप्रैल

दोपहिया क्षेत्र ने पांच तिमाहियों से ज्यादा समय में बिक्री के मोर्चे पर अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है। मार्च तिमाही में भी बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प ने बिक्री में सालाना आधार पर 17-24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो सूचीबद्ध वाहन कंपनियों में सर्वाधिक है। बार बार कीमत वृद्धि के मौजूदा प्रभाव, सर्वाधिक ऊँची तेल कीमतों और सुस्त ग्रामीण धारणा से दोपहिया निर्माताओं द्वारा कमजोर प्रदर्शन को बढ़ावा मिला है। दोपहिया कंपनियों के लिए हालात जिन वजहों से खराब हुए हैं, उनमें इंटरनल कम्बर्शन इंजन या आईसीई-आधारित यूनिट से बिक्री में आया बदलाव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए लोकप्रियता बढ़ी है।

हालांकि एक साल पहले की अवधि के मुकाबले यह कमजोर प्रदर्शन था, लेकिन ब्रोकरों का मानना है कि मासिक आधार पर बिक्री में सुधार आया है। निर्मल बांग रिसर्च के वरुण बख्शी का कहना है कि उत्तर भारत में दोपहिया डीलरों के आंकड़ों से ताजा कीमत वृद्धि के बावजूद मांग में मासिक आधार पर सुधार और वाहन निर्माताओं की सक्रियता में तेजी का संकेत मिलता है। उनका कहना है कि मौजूदा शадियों के सीजन और शैक्षिक संस्थानों तथा कार्यालयों के खुलने से भी मोटरसाइकिलों में एंटी तथा एक्जीक्यूटिव सेगमेंटों के लिए

## बढ़त दर्ज होने की उम्मीद

कंपनी	सीएमपी रुपये	रिटर्न एक साल फीसदी	लक्षित कीमत रुपये	वर्द्धत फीसदी	पीई वि.व. 24 अनुमान
बजाज ऑटो	<b>3,642.5</b>	<b>-1.1</b>	<b>4,049.7</b>	<b>11.2</b>	<b>16.2</b>
आयशर मोटर्स	<b>2,631.5</b>	<b>12.6</b>	<b>2,841.1</b>	<b>8.0</b>	<b>22.2</b>
हीरो मोटोकॉर्प	<b>2,294.3</b>	<b>-19.2</b>	<b>2,955.2</b>	<b>28.8</b>	<b>11.8</b>
टीवीएस मोटर	<b>645.6</b>	<b>20.9</b>	<b>705.4</b>	<b>9.3</b>	<b>19.7</b>
अ <span> </span> : अनुमान। सीएमपी <span> </span> : मौजूदा बाजार भाव					
पीई <span> </span> : प्राइस टु अर्निंग, वित्त वर्ष 24 की आय अनुमान पर आधारित					
स्रोत <span> </span> : ब्लूमबर्ग। संकलन <span> </span> : बीएस रिसर्च ब्यूरो					

पूछताछ बढ़ी है।

आईआईएफएल रिसर्च का मानना है कि ग्रामीण सेगमेंट में कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से सुधरा है, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और बैंकों द्वारा ग्रामीणों के लिए ऋण वितरण में तेजी आई है तथा ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर श्रमिकों ने वापसी शुरू की है। ग्रामीण सेगमेंट में सुधार दोपहिया क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका कुल घरेलू दोपहिया बिक्री में करीब 50 प्रतिशत का योगदान है।

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ब्रोकरों के सुझाव अलग अग हैं, चाहे बात हीरो मोटोकॉर्प जैसे घरेलू केंद्रित, एंटी/एक्जीक्यूटिव सेगमेंट में दबदबा रखने वाली कंपनियां हों या टीवरएस मोटर और बजाज ऑटो जैसी निर्यात केंद्रित के साथ साथ प्रीमियम बाइक निर्माता आयशर मोटर की हो।

जहां बाजार दिग्गज हीरो मोटोकॉर्प के प्रदर्शन में पिछले साल के दौरान बड़ी कमजोरी आई है, वहीं विश्लेषकों को भविष्य में इस कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहने की संभावना है। यह एकमात्र ऐसी दोपहिया कंपनी का शेयर है जिसने पिछले साल के दौरान 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

पिछले साल के दौरान प्रतिस्पर्धी सुचकांक निफ्टी ऑटो और निफ्टी के साथ प्रतिफल अंतर 30 प्रतिशत से ज्यादा रहा है। ग्रामीण सुधार के अलावा, शेयरखान रिसर्च के अनुसार, कि कंपनी को अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ने, अर्थव्यवस्था के मजबूत सेगमेंटों में सुधार, एक्जीक्यूटिव मोटरसाइकिल और प्रीमियम बाइक और स्कूटर सेगमेंटों में आक्रामक उत्पाद पेशकशों से लाभ मिलने की संभावना है। ईवी के लिए हीरो की रूपरेखा उसकी तैयारियों और प्रौद्योगिकी तथा बड़ी भागीदारियों में निवेश को देखते हुए उचित है।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने मार्च 2022 में ई-मोबिलिटी सॉल्युशन के लिए वाइडा ब्रॉड पेश किया है।

भले ही बाजार हीरो मोटोकॉर्प पर सकारात्मक है, लेकिन कुछ ब्रोकरों ने प्रीमियम बाइक निर्माता आयशर मोटर पर बिकवाली रेटिंग दी है। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि कंपनी नए वाहन पेश करने और नेटवर्क विस्तार के

बावजूद अपेक्षित बिक्री वृद्धि में सक्षम नहीं थी। आपूर्ति संबंधित समस्याओं और नई प्रतिस्पर्धी भी उसके उत्पादों के लिए बिक्री में तेजी के अभाव का कारण हो सकती है। समान स्थिति (पिछले पांच वर्षों के दौरान 2-30 प्रतिशत की कीमत वृद्धि) के बावजूद, प्रीमियम बाइक सेगमेंट अपने यूटिलिटी व्हीकल (यूवी) सकमक्षों की सफलता का स्थान लेने में सक्षम नहीं रहा। उनका मानना है कि जहां यूवी सेगमेंट 14 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, वहीं प्रीमियम सेगमेंट (250सीसी



क्षमता से ज्यादा की बाइक) में रॉयल एनफील्ड शामिल है, और यह पिछले पांच वर्षों के दौरान 4 प्रतिशत तक घटा है। रॉयल एनफील्ड में मासिक थोक बिक्री में संभावना और निरंतरता के अभाव की वजह से बिकवाली रेटिंग दी गई है।

घरेलू-सह-निर्यात दांव - बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर को लेकर ब्रोकरों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। आईसीआईसीआई सिक््योरिटीज ने इस महीने के शुरू में बजाज ऑटो को डाउनग्रेड किया है, क्योंकि उसका मानना है कि यह

शेयर मुनाफे के संदर्भ में बिगड़ते परिदृश्य, बढ़ती तेल कीमतों और प्रमुख निर्यात बाजारों में सपाट मांग परिवेश के बीच आकर्षक कीमतों पर है। दोपहिया के लिए निर्यात पिछले 4-5 महीनों से ठहराव का संकेत दे रहा है और बिक्री या तो स्थिर दिखी है या इसमें गिरावट आई है। उन्हें वित्त वर्ष 2022-24 के दौरान निचले आधार पर समान अवधि में कंपनी के घरेलू पोर्टफोलियो में 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि का अनुमान है।

बाजार टीवीएस मोटर के परिदृश्य पर सकारात्मक है। यह शेयर जेफरीज रिसर्च का पसंदीदा है। जेफरीज रिसर्च का मानना है कि घरेलू बाजार से बिक्री वृद्धि के अलावा कंपनी में स्कूटर और प्रीमियम बाइक सेगमेंटों में अच्छी उत्पाद क्षमताएं हैं।

हालांकि ईवी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है, लेकिन निर्मल बांग रिसर्च का मानना है कि प्रमुख दोपहिया निर्माताओं को नए कंपनियों, परिवालन के उनके ऊंचे दायरे, कुशल खरीद प्रणालियों और उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की उनका क्षमता को लेकर लागत लाभ पर भी ध्यान देना होगा।

## स्मार्ट इन्वेस्टर 3



## बाजार हलचल

विकसित बाजारों से पिछड़े उभरते बाजार अगर वित्तीय प्रदर्शन से मिले संकेत पर नजर डाला जाए तो विकसित बाजारों का प्रदर्शन उभरते बाजारों (ईएम) से बेहतर हो सकता है। ब्लूमबर्ग के विश्लेषण के मुताबिक, शुक्रवार तक तिमाही नतीजे पेश करने वाली 93 कंपनियों में से सिर्फ एक ने एमएससीआई ईएम इंडेक्स की चार कंपनियों से डॉलर आधारित अनुमानों को मात दी है, जो एसपेंडपी 500 इंडेक्स के मामले में हर पांच में चार कंपनियों के लिए सही बैठता है। इसके अलावा एमएससीआई ईएम इंडेक्स के फर्मा की औसत भारांकित आय प्रति शेयर 6.5 फीसदी रह गई, जो 12 महीने पहले के अनुमान से नीचे है। विशेषज्ञों ने कहा कि निवेशक अल्पावधि में उभरते बाजारों के मुकाबले विकसित बाजारों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

## ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर कैंपस, रेनबो

कैंपस ऐक्टिववियर के शेयरों को ग्रे मार्केट में 10 फीसदी प्रीमियम मिल रहा है जबकि रेनबो चिल्ड्रेंस मेडिकेयर के शेयरों को करीब 20 फीसदी प्रीमियम हासिल हो रहा है। जूता विनिर्माता कैंपस ऐक्टिववियर का 1,400 करोड़ रुपये का आईपीओ मंगलवार को खुल रहा है। कंपनी ने इसका कीमत दायरा 278 रुपये से 292 रुपये प्रति शेयर तय किया है। बच्चों के अस्पताल की शृंखला चलाने वाली रेनबो का आईपीओ बुधवार को खुल रहा है। उसने कीमत दायरा 516 से 542 रुपये प्रति शेयर तय किया है। द्वितीयक बाजार में उतारचढ़ाव से ग्रे मार्केट की गतिविधियां व प्रीमियम अभी सुस्त है।

## पेपर स्टॉक पर विश्लेषक सकारात्मक

पेपर उद्योग के परिदृश्य को लेकर विश्लेषकों का नजरिया तेजी का है और उन्हें जेके पेपर, स्टार पेपर मिल्स और जीनस पेपर एंड बोर्डर्स जैसी कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। पेपर इंडस्ट्री न्यूज़प्रींट पेपर व प्रिंटिंग राइटिंग पेपर की घटती मांग का सामना कर रहा है, जिसकी वजह डिजिटलीकरण है। दूसरी ओर पैकेजिंग पेपर की मांग बढ़ रही है। *सुंदर सेतुपमन और समी मोडक*

## बीएस बातचीत

# तेज बिकवाली की थम सकती है रफ्तार

एमआईबी सिक््योरिटीज इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी जिगर शाह ने पुनीत वाधवा को दिए साक्षात्कार में बताया कि बाजारों में खुदरा पूंजी प्रवाह ब्याज दरों में वृद्धि की शुरुआत होने से गिर सकता है। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश:



कुछ विश्लेषक फिर से आपूर्ति शृंखला दबाव की चेतावनी दे रहे हैं। क्या बाजारों और भारतीय उद्योग जगत में इसका असर दिख चुका है? आपूर्ति शृंखला दबाव पहले ही दिख चुका है, खासकर जब आप कुछ एसयूवी मॉडलों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर हार्डवेयर आदि के लिए प्रतीक्षा अवधि पर विचार करें तो इसका असर जान सकते हैं। इसकी वजह से उत्पाद कीमतें बढ़ रही हैं और श्रमिक किल्लत और पारिश्रमिक महंगाई को बढ़ावा मिल रहा है। इसका अंदाजा विश्लेषकों के अनुमानों में नहीं लगाया गया है। रूस और यूक्रेन तेल-गैस, धातु तथा अनाज के बड़े उत्पादक बने हुए हैं और इन दोनों देशों में अशांति से इन जित्सों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगी।

क्या आप वित्त वर्ष 2023 में प्राथमिक और सेकेंडरी बाजारों में मौजूदा पूंजी प्रवाह की रफ्तार बरकरार रहने की संभावना देख रहे हैं? जब ब्याज दर वृद्धि का चक्र शुरू होगा खुदरा पूंजी की रफ्तार घटेगी। इसके अलावा, यदि इक्विटी बाजार का प्रतिफल लंबी अवधि तक नकारामक बना रहा तो इससे बड़ी रिटेल भागीदारी प्रभावित होगी। ऐतिहासिक तौर पर, अधिकतम खुदरा निवेशक भागीदारी तब दर्ज की गई है जब बाजारों में तेजी आई थी। हालांकि यह स्पष्ट है कि आसान और लागत किफायती ऑनलाइन निवेश विकल्पों की शुरुआत के साथ बाजार में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ेगी।

वर्ष 2022 में अब तक बाजारों के प्रदर्शन पर आपका क्या नजरिया है? वैश्विक बाजार जिंस कीमतों में वृद्धि का दबाव महसूस कर रहे हैं और कई देशों के सूचकांक नीचे आए हैं। यह गिरावट साल में अब तक के आधार पर एक अंक से लेकर करीब 18 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। तुलनात्मक तौर पर निफ्टी और सेंसेक्स कम गिरावट के शिकार हुए हैं, जिससे ऊंची मुद्रास्फीति/ब्याज दरों से वित्त वर्ष 2023 के लिए कॉरपोरेट प्रदर्शन प्रभावित होने को लेकर चिंताओं का पता चलता है। भारतीय इक्विटी का अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन छोटे निवेशकों की भागीदारी एवं पूंजी निवेश प्रवाह पर भी निर्भर करता है, जिन्होंने पिछले साल 20 अरब डॉलर का निवेश किया। इसके अलावा ब्याज दरों में भी बदलाव नहीं आया और इसलिए इक्विटी से ऊंचे प्रतिफल वाले डेट बाजारों में कोष प्रवाह बहुत ज्यादा नहीं दर्ज किया गया। कुल मिलाकर निवेशक धारणा यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर सकती है।

दौरान युद्ध को लेकर बादल छंटेते हैं तो क्या सेंसेक्स और निफ्टी 2022 में दो अंक का प्रतिफल दे सकते हैं?

यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी संभावना नहीं दिख रही है। भले ही युद्ध जल्द समाप्त हो जाए, लेकिन वैश्विक व्यापार, रूस को समर्थन करने वाले देशों पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ने, और आपूर्ति शृंखला संबंधित चुनौतियां बरकरार रहने के संदर्भ में चिंताएं लंबी अवधि तक बनी रह सकती हैं। बांड प्रतिफल इक्विटी पर प्राप्त आय से ऊपर रहेगा और यह भी बाजारों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और सभी क्षेत्रों की अन्य बड़ी कंपनियां (जो कम कार्बन उत्सर्जन पर काम कर रही हैं) सामान्य तौर पर सुधार प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि अपनी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले तेजी से बढ़ेगी और जोखिम भी घटाएंगी। हम सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, ट्रैक्टर, दोपहिया और निजी बैंकों पर अनुवरेट हैं। वहीं, सीमेंट, अनुबंधकर्ताओं, और एनबीएफसी पर अंडरवेट है।

यदि अगले कुछ महीनों के क्या आप अमेरिकी फेड द्वारा

# अप्रैल में अब तक एफपीआई ने निकाले 12,286 करोड़ रुपये

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक तरीके से बढ़ोतरी की आशंका के बीच विदेशी निवेशकों ने इस महीने अबतक भारतीय बाजारों से 12,286 करोड़ रुपये निकाले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना, रूस-यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, घरेलू मोर्चे पर ऊंची मुद्रास्फीति की वजह से भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का निवेश प्रवाह दबाव में रहेगा।



एफपीआई ने मार्च, 2022 तक भारतीय शेयर बाजारों में लगातार छह महीने तक बिकवाली की थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय शेयर बाजारों से 1.48 लाख करोड़ रुपये निकाले थे। इसकी मुख्य

वजह फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका और रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से पैदा हुए हालात थे। लगाताह छह माह तक बिकवाली के बाद एफपीआई ने अप्रैल के पहले सप्ताह में शेयरों में 7,707 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके बाद 11 से 13 अप्रैल के कम कारोबारी सत्रों वाले सप्ताह के दौरान उन्होंने शेयरों से 4,500 करोड़ रुपये की निकासी की। उसके बाद के सप्ताह में भी एफपीआई की बिकवाली जारी रही। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 22 अप्रैल के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से शुद्ध रूप से 12,286 करोड़ रुपये की निकासी की है।

समीक्षाधीन अवधि में एफपीआई ने शेयरों के अलावा ऋण या बॉन्ड बाजार से भी 1,282

करोड़ रुपये की निकासी की है। मॉनिंगस्टार इंडिया के सहायक निदेशक (प्रबंधक शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से निवेशकों की धारणा को प्रभावित हो रही है। ऐसे में निवेशक उभरते बाजारों में अपने निवेश को लेकर एक बार फिर सतर्क रख अपना रहे हैं। कोटक सिक््योरिटीज के इक्विटी शोध (खुदरा) प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, ऊंची मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी जैसे कारणों से निकट भविष्य में एफपीआई के प्रवाह में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। भारत के अलावा एफपीआई ने अप्रैल में अन्य उभरते बाजारों मसलन ताइवान, दक्षिण कोरिया और फिलिपींस से भी निकासी की है।

भाषा

<p>THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.</p> <p><b>PUBLIC ANNOUNCEMENT</b></p> <p><b>GUJARAT POLYSOL CHEMICALS LIMITED</b></p> <p>Our Company was originally incorporated as ‘Gujarat Polysol Chemicals Private Limited’, a private limited company under the Companies Act, 1956 at Ahmedabad with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Gujarat (RoC) on October 18, 1989. Subsequently, the name of our Company was changed to ‘Gujarat Polysol Chemicals Limited’ upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders on September 21, 2021. A fresh certificate of incorporation consequent upon change of name on conversion to public limited company was issued under the Companies Act, 2013 by the RoC on October 13, 2021. For details of changes in the name and registered office of our Company, please see the chapter entitled ‘History and Certain Corporate Matters’ beginning on page 199 of the Draft Red Herring Prospectus dated March 24, 2022 (DRHP).</p> <p><b>Registered Office:</b> Plot No. 1734, Third Phase, GIDC, District - Valsad, Vapi - 396 195, Gujarat, India.</p> <p><b>Corporate Office:</b> C-5/101/4, Polysol Building, 2<sup>nd</sup> Floor, GIDC, Char Rasta, N.H 48, Vapi, District Valsad - 396 195, Gujarat, India.</p> <p><b>Contact Person:</b> Dipakumar Mohanlal Sanghani, Chief Financial Officer, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 99251 00331, E-mail: compliance@gujaratpolysol.com; <b>Website:</b> www.gujaratpolysol.com; <b>Corporate Identification Number:</b> U24231GJ1989PLC012892</p> <p><b>OUR PROMOTERS: SHAILESHKUMAR BALVANTRAI DESAI AND UMANG SHAILESH DESAI</b></p> <p>INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO <b>[●]</b> EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH (EQUITY SHARES) OF GUJARAT POLYSOL CHEMICALS LIMITED (OUR COMPANY OR ISSUER) FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) (OFFER PRICE), AGGREGATING UP TO ₹4,140.00 MILLION (OFFER) COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO <b>[●]</b> EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹870.00 MILLION (FRESH ISSUE) AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO <b>[●]</b> EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹3,270.00 MILLION (OFFER FOR SALE), COMPRISING: (A) UP TO <b>[●]</b> EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,830.00 MILLION BY SHAILESHKUMAR BALVANTRAI DESAI AND UP TO <b>[●]</b> EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹380.00 MILLION BY UMANG SHAILESH DESAI (COLLECTIVELY, THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS); AND (B) UP TO <b>[●]</b> EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,020.00 MILLION BY M/S. POLYSOL FINANCIAL SERVICES LLP AND UP TO <b>[●]</b> EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹40.00 MILLION BY M/S. APURVA INTERNATIONAL (COLLECTIVELY, THE PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS, AND ALONG WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, COLLECTIVELY, THE SELLING SHAREHOLDERS). THE OFFER WILL CONSTITUTE <b>[●]%</b> OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.</p> <p>THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE OFFER PRICE IS <b>[●]</b> TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER (BRLM) AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE <b>[●]</b>, AN ENGLISH LANGUAGE NATIONAL DAILY WITH WIDE CIRCULATION, ALL EDITIONS OF <b>[●]</b>, A HINDI LANGUAGE NATIONAL DAILY WITH WIDE CIRCULATION, AND <b>[●]</b> EDITION OF <b>[●]</b> (GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED (BSE) AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE, AND TOGETHER WITH THE BSE, THE STOCK EXCHANGES) FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SEBI/CDR REGULATIONS AS AMENDED.</p> <p><b>ADDENDUM CUM CORRIGENDUM TO THE DRHP: NOTICE TO INVESTORS</b></p> <p>This is with reference to the draft red herring prospectus of the Company dated March 24, 2022 (DRHP) filed with Securities and Exchange Board (SEBI) in connection with the Offer. Attention of the Investors is drawn to the following:</p> <p>1. All references to the phrase “<i>the brothers</i>” at the following places in the DRHP should read as “<i>the brothers, viz., Shishir Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai</i>”: (a) definition of the term “<i>Connected Group</i>” on page 5 of the DRHP; (b) definition of the term “<i>Promoter Group</i>” on page 6 of the DRHP; (c) definition of the term “<i>SEBI Exemption Applications</i>” on page 6 of the DRHP; (d) under the sub-heading “<i>Exemption from complying with any provisions of securities laws, if any</i>,” on page 32 of the DRHP; and (e) under the sub-heading “<i>Exemption under securities laws</i>” on page 333 of the DRHP.</p> <p>2. Following disclosure shall be inserted: (a) on page 225 of the DRHP, below the table stipulated under the sub-heading “<i>Natural persons who are part of the Promoter Group</i>”; (b) on page 226 of the DRHP, after the narration provided under chapter entitled “<i>Our Group Companies</i>”; and (c) on page 30 of the DRHP, below the table stipulated under the sub-heading “<i>Summary of Related Party Transactions - Outstanding Balance as at:</i>”</p> <p>“<i>Shishir Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai, the brothers of Shaileshkumar Balvantrai Desai, one of our Promoters, have refused to provide information required to be disclosed in terms of SEBI/ICDR Regulations. Consequently, our Company has filed the SEBI Exemption Applications as our Company has been unable to obtain the requisite information in respect of Shishir Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai and the Connected Group. Accordingly, our Company has not disclosed details of Shishir Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai and the Connected Group in this Draft Red Herring Prospectus.</i></p> <p>3. On page 225 of the DRHP, under the sub-heading “<i>Confirmations</i>”, following disclosures shall be inserted:</p> <p>“<i>M/s. Urmil Polymer Industries gave a loan amounting to ₹0.10 million to Sanjay Balvantrai Desai on February 28, 2012. Subsequent to the business transfer agreement dated May 29, 2020, entered between our Company and M/s. Urmil Polymer Industries, this loan was transferred to our Company. Sanjay Balvantrai Desai repaid the aforementioned loan to our Company on 24 February 2022.</i></p> <p><i>M/s. Urmil Polymer gave a loan amounting to ₹0.10 million to Shishir Balvantrai Desai on February 28, 2012 and M/s. Polysol Industries gave various loans to Shishir Balvantrai Desai between the March, 2012 and September, 2014 aggregating to ₹10.27 million. Subsequent to the Business Transfer Agreements, the aforementioned loans were transferred to our Company. Shishir Balvantrai Desai is liable to pay the said loans to our Company (Shishir Outstanding Loans). In relation to the related party transactions each with Apurva Chemicals Private Limited and Sarigam Industrial Products (both forming part of the Connected Group), there are no outstanding balances as on date.</i></p> <p><i>Apart from Shishir Outstanding Loans, neither our Company nor our Promoters have any ongoing transaction with Shishir Balvantrai Desai and Sanjay Balvantrai Desai.”</i></p> <p>This addendum cum corrigendum is with reference to the DRHP (Corrigendum) has been approved by our IPO Committee in its meeting dated April 22, 2022 and shall be read in conjunction with the DRHP. The information in this Corrigendum supersedes the information in the DRHP to the extent inconsistent with the information in the DRHP. Relevant changes will be reflected in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with RoC, SEBI and the Stock Exchanges.</p>	
<b>BOOK RUNNING LEAD MANAGER</b>	<b>REGISTRAR TO THE OFFER</b>
	
<b>INGA VENTURES PRIVATE LIMITED</b> 1229, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Opp. Telli Galli, Andheri (E), Mumbai - 400 069, Maharashtra, India Tel: +91 22 6854 0808 Email: gpcl ipo@ingaventures.com Investor Grievance e-mail: investors@ingaventures.com Website: www.ingaventures.com Contact Person: Kavita Shah SEBI Registration No.: INM000012698	<b>LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED</b> C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 22 4918 6000 Email: gujaratpolysol.ipo@linkintime.co.in Investor Grievance Email: gujaratpolysol.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti GopalKrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For GUJARAT POLYSOL CHEMICALS LIMITED  
On behalf of the Board of Directors

Sd/-  
Company Secretary and Compliance Officer

**GUJARAT POLYSOL CHEMICALS LIMITED** is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on March 24, 2022. The DRHP is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and the website of the BRLM, i.e., Inga Ventures Private Limited at [www.ingaventures.com](http://www.ingaventures.com). Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled ‘*Risk Factors*’ beginning on page 33 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

There will be no public offering in the United States. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in “offshore transactions” in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers, and sales are made.



**POLYSOL CHEMICALS LIMITED**  
 on behalf of the Board of Directors  
*Sd/-*  
**Secretary and Compliance Officer**

Receipt of requisite approvals, market  
 on March 24, 2022. The DRHP is  
 available on [www.secdatabase.com](http://www.secdatabase.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com),  
 that investment in equity shares  
 on page 33 of the DRHP. Potential

under the U.S. Securities Act or any  
 pursuant to an exemption from, or in a  
 the, the Equity Shares are only being  
 applicable laws of the jurisdiction